



# माँ दुर्गा आरती



जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय श्यामा गौरी।  
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी॥ जय॥

मांग सिन्दूर बिराजत टीको मृगमद को।  
उज्ज्वल से दोऊ नैना चन्द्र बदन नीको॥ जय॥

कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजै।  
रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजै॥ जय॥

केहरि वाहन राजत खड्ग खप्परधारी।  
सुर-नर-मुनिजन सेवत तिनके दुःखहारी॥ जय॥

कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती।  
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम ज्योति॥ जय॥

शुम्भ निशुम्भ विदारे महिषासुर घाती।  
धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती॥ जय॥

चण्ड-मुण्ड संहारे शोणित बीज हरे।  
मधु कैटभ दोऊ मारे, सुर भयहीन करे॥ जय॥

ब्रह्माणी, रुद्राणी, तुम कमला रानी।  
आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी॥ जय॥

चौंसठ योगिनि मंगल गावत नृत्य करत भैरू।  
बाजत ताल मृदंगा अरू बाजत डमरू॥ जय॥

तुम ही जगत की माता तुम ही हो भर्ता।  
भक्तन की दुःख हरता सुख सम्पत्ति कर्ता ॥ जय ॥

भुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी।  
मनवांछित फल पावत सेवत नर-नारी ॥ जय ॥

कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती।  
श्रीमालकेतु में राजत कोटि रतन ज्योति ॥ जय ॥

अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावै।  
कहत शिवानंद स्वामी सुख सम्पत्ति पावै ॥ जय ॥

1

---

सौजन्य से:

धर्मयात्रा (DharmYaatra)

वेबसाइट: <https://dharmyaatra.in/>

व्हाट्सएप नंबर: +917410957600

नोट: यदि आप वैदिक ज्ञान 🙏, धार्मिक कथाएं ॐ, मंदिर व ऐतिहासिक स्थल 🏰, भारतीय इतिहास, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य 🧠, योग व प्राणायाम 🧘, घरेलू नुस्खे 🍲, धर्म समाचार 📰, शिक्षा व सुविचार 👣, पर्व व उत्सव 🪔, राशिफल 🌌 तथा सनातन धर्म की अन्य धर्म शाखाएं 🌀 (जैन, बौद्ध व सिख) इत्यादि विषयों के बारे में प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं तो आपको धर्मयात्रा संस्था के विभिन्न सोशल मीडिया खातों से जुड़ना चाहिए। उनके लिंक हैं:

[व्हाट्सएप ग्रुप](#)

[व्हाट्सएप चैनल](#)

[फेसबुक पेज](#)

[इंस्टाग्राम प्रोफाइल](#)